



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 401]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 10, 1981/अग्रहायण 19, 1903

No. 401]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 10, 1981/AGRAHAYANA 19, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय
(कानून और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली 10 दिसम्बर, 1981

उप वनपाल	13
उप वनपाल, मुख्यालय	1
उप वनपाल, कार्यकारी योजना प्रभाग	1
उप वनपाल, उत्पादन	3
उप वनपाल, अनुसंधान और प्रशिक्षण	1

23

हृ सं० का० नि 653 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 4 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1961 का 61) की धारा 8 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और "हरियाणा" सरकार से परामर्श करके, भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियम, 1966 में भागे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) नवा संशोधन विनियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 भारतीय वन सेवा (पद संख्या का नियतन) विनियम, 1966 की अनुसूची में "हरियाणा" शीर्षक और उसके अधीन होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"हरियाणा

1. राज्य सरकार के अधीन प्रविष्ट पद	23
मुख्य वनपाल	1
उप मुख्य वनपाल	1
वनपाल	2

4. उपर्युक्त 1 के 20% के हिसाब से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व

5

28

3. भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के अनुसार पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद

9

4. सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद

19

5. उपर्युक्त 4 के 15% के हिसाब से प्रतिनियुक्ति रिजर्व

3

6. उपर्युक्त 4 के 11% के हिसाब से प्रतिनियुक्ति छुट्टी रिजर्व

2

7. उपर्युक्त 4 के 20% के हिसाब से कनिष्ठ पद

4

8. उपर्युक्त 4 के 10% के हिसाब से प्रशिक्षण रिजर्व

2

सीधी भर्ती वाले पद

30

पदोन्नति वाले पद

9

कुल प्राधिकृत पद संख्या

39

मुख्य विनियम दिनांक 31-10-1966 की अधिसूचना संख्या 6/16/66-प्र. भा. से. (IV) द्वारा दिनांक 31-10-1966 के भारत के असाधारण राजपत्र में सामान्य सांविधिक नियम संख्या 1673 के रूप में अधिसूचित किए गए थे और हरियाणा की संघीय पद-संख्या दिनांक 26-4-1971 की अधिसूचना संख्या 6/36/76-प्र. भा. से. (IV) द्वारा दिनांक 8-5-1971 के सामान्य सांविधिक नियम संख्या 605 के रूप में, दिनांक 4-12-1972 के सामान्य सांविधिक नियम संख्या 478 (ई) के रूप में और दिनांक 6 जुलाई, 1976 की अधिसूचना संख्या 16016/29/75-प्र. भा. से. (IV)-ए, दिनांक 6-7-1976 के सामान्य सांविधिक नियम संख्या 444-(ई) के रूप में, संशोधित की गई थी।

[सं. 16016/14/80-प्र. भा. से. (चार)-क]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Department of Personnel & Admn. Reforms)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 10th December, 1981

G.S.R. 653(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the All India Service Act, 1951, (61 of 1961), read with rule 4 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Central Government, in consultation with the Government of "Haryana" hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Ninth Amendment regulations, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Forest Service, (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, for the heading "Haryana" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely :—

"HARYANA"

1. Senior posts under the State Government	23
Chief Conservator of Forests	1
Addl. Chief Conservator of Forest	1
Conservator of Forests	2
Deputy Conservator of Forests	13
Deputy Conservator of Forests, Headquarters	1
Deputy Conservator of Forests, Working Plan Div.	1
Deputy Conservator of Forests, Production	3
Deputy Conservator of Forests, Research & Training	1
	23
2. Central Deputation Reserve @ 20% of 1 above	5
	28
3. Posts to be filled by Promotion in accordance with rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966	9
4. Posts to be filled by direct recruitment	19
5. Deputation Reserve @ 15% of 4 above	3
6. Leave Reserve @ 11% of 4 above	2

7. Junior posts @ 20% of 4 above	4
8. Training Reserve @ 10% of 4 above	2

Direct Recruitment Posts	30
Promotion Posts	9

TOTAL AUTHORISED STRENGTH 39

The Principal regulations were notified vide Notification 6/16/66-AIS(IV) dated 31-10-1966 as G.S.R. No. 1673 in the gazette of India Extraordinary of 31-10-1966 and the Cadre Strength of Haryana has been amended vide Notification No. 6/36/76-AIS(IV) dated 26-4-1971 as G.S.R. No. 605 dated 8-5-1971 notification No. 6/59/72-AIS(IV) dated 30-10-1972 as G.S.R. No. 478(E) dated 4-12-1972 Notification No. 16016/29/75-AIS(IV)-A dated the 6th July, 1976 as G.S.R. No. 444(E) dated 6-7-1976.

[No. 16016/14/80-AIS(IV)-A]

सा. का. नि. 654 (प्र) :—केन्द्रीय सरकार, भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 के नियम 11 के साथ पठित अधिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 51) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हरियाणा सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अधिल भारतीय सेवा (वेतन) बसवा संशोधन नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 में :—

(क) अनुसूची III-क में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन सेवा में समय वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों की तालिका के प्रथम कालम में आने वाली प्रविष्टि "हरियाणा" और द्वितीय तथा तृतीय कालमों की तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"हरियाणा"

मुख्य वनपाल 2500-125/2-2750

अपर मुख्य वनपाल 2250-125/2-2500

वनपाल 1800-100-2000

(ख) अनुसूची III-ख में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन सेवा के बरिष्ठ समय वेतनमान वाले पदों और समय वेतनमान में वेतन के अधिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों की तालिका के प्रथम कालम में आने वाली प्रविष्टि "हरियाणा" और द्वितीय कालम की तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"हरियाणा"

उप वनपाल

उप वनपाल, मुख्यालय

उप वनपाल, कार्यकारी योजना प्रभाग

उप वनपाल, उत्पादन

उप वनपाल, अनुसंधान और प्रशिक्षण

मुख्य नियम दिनांक 2-3-1968 की अधिसूचना संख्या 2/11/65-प्र. भा. से. (IV) द्वारा दिनांक 2-3-1968 के सामान्य सांविधिक नियम संख्या 482 के रूप में अधिसूचित किए गए थे और हरियाणा संघ

सम्बन्ध में वेतन अनुसूची को दिनांक 26-4-1971 की अधिसूचना संख्या 8/16/71-प्र.भा.से. (IV) द्वारा 8-5-1971 के सामान्य सांविधिक नियम संख्या 662 के रूप में, और दिनांक 6-7-1976 की अधिसूचना संख्या 16016/29/75-प्र.भा.से. (IV)-बी, द्वारा दिनांक 6-7-1976 के सामान्य सांविधिक नियम संख्या 445 (ई) के रूप में संशोधित किया गया है।

[सं. 16016/14/80-प्र.भा.से. (चार)-ख]

बी० आर० श्रीनिवासन, प्रवर सचिव

G.S.R. 654(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3, of the All India Services Act, 1951 (51 of 1951), read with rule 11 of the Indian Forest Service (pay) Rules, 1968, the Central Government, in consultation with the Government of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Indian Forest Service (Pay) Tenth Amendment Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968:—

(a) In Schedule III-A Posts carrying pay above the time scale pay in the Indian Forest Service under the State Governments, in the Table for the entry "Haryana" occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns the following shall be substituted, namely:—

"HARYANA" Chief Conservator of Forests 2500-125/2-2750

Addl. Chief Conservator 2250-125/2-2500 of Forests

Conservator of Forests 1800-100-2000

(b) In schedule-III-B Posts carrying pay in the senior time-scale of the Indian Forest Service under the state Governments including posts carrying special pays in addition to pay in the time scale, for the entry "Haryana" occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely:—

"HARYANA"	Deputy Conservator of Forests	
	Deputy Conservator of Forests	Headquarters.
	Deputy Conservator of Forests,	Working Plan Division
	Deputy Conservator of Forests	Production
	Deputy Conservator of Forests,	Research & Training

The Principal rules were notified vide Notification No. 2/11/65-AIS(IV) dated 2-3-1968 as G.S.R. No. 482 dated 2-3-1968 and the Pay schedule regarding Haryana Cadre has been amended vide Notification No. 8/16/71-AIS(IV) dated 26-4-1971 as G.S.R. No. 662 dated 8-5-1971, Notification No. 16016/29/75-AIS(IV)-B dated 6-7-1976 as G.S.R. No. 445(E) dated 6-7-1976.

[No. 16016/14/80-AIS(IV)-B]

V. R. SRINIVASAN, Under Secy.

